

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 472] नई दिल्ली, संगतवार, अक्तूबर 3, 1967/आश्विन 11, 1889
No. 472] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3, 1967/ASVINA 11, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October 1967

S.O. 3593.—In pursuance of section 12A of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby specifies the Orders mentioned in column (3) of the Schedule, hereto annexed, made by the State Government mentioned in the corresponding entry in column (2) thereof, under section 3 of the said Act, to be special orders for purposes of summary trial under the said section 12A.

SCHEDULE

Orders made by the State Governments

S. No. (1)	Name of the State Government (2)	Title of the Order (3)
1.	Maharashtra	The Maharashtra Kerosene Dealers' Licensing Order, 1966.
2.	Mysore	The Mysore Essential Commodities [(other than Food-stuffs) (Maintenance of Accounts, Display of Prices and Stocks)] Order, 1967.
3.	Mysore	The Mysore Cotton Textiles (Maintenance of Accounts and Control) Order, 1967.

[No. 28(57)CS.II/66.]

K. B. LALL, Secy.

(1621)

